

प्रेस नोट

जनपद रामपुर ।

दिनांक: 16.08.2022

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram@rampurpolice

आजादी की 75वीं वर्षगांठ को "आजादी के अमृत महोत्सव" के अवसर पर किया गया मैराथन दौड़ का आयोजन

आजादी की 75वीं वर्षगांठ को "आजादी के अमृत महोत्सव" के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके सन्दर्भ में आज दिनांक 16.08.2022 को प्रातः रिजर्व पुलिस लाइन, रामपुर से 04 किमी0 मैराथन दौड़ (Run for Nation) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें महिला पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन से प्रतियोगिता का शुभारम्भ क्षेत्राधिकारी नगर, रामपुर श्री अनुज कुमार चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया तथा प्रतियोगिता का समापन हमसफर चौक होते हुए पुलिस लाइन पर आकर सम्पन्न हुआ। प्रतियोगिता में 73 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस समय क्षेत्राधिकारी लाइन श्री रवि खोखर क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के प्रथम पाँच प्रतिभागियों क्रमशः

1. महिला आरक्षी बिजेश कुमारी थाना सिविल लाइन-प्रथम स्थान
2. महिला आरक्षी रिचा, पुलिस लाइन-द्वितीय स्थान
3. महिला आरक्षी उषा महिला थाना-तृतीय स्थान
4. महिला आरक्षी भारती, थाना बिलासपुर-चतुर्थ स्थान
5. महिला आरक्षी मनीषा महिला थाना-पंचम स्थान

इसके अतिरिक्त 2.5 किमी0 मैराथन दौड़ ;तद वित छंजपवदद्ध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिसमें पुलिस परिवार के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन से प्रतियोगिता का शुभारम्भ क्षेत्राधिकारी नगर, रामपुर श्री अनुज कुमार चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया तथा प्रतियोगिता का समापन मण्डी समिति पर हुआ। प्रतियोगिता के प्रथम पाँच प्रतिभागियों क्रमशः

- 1-कुमारी मोना कक्षा-8 की छात्रा-प्रथम स्थान
- 2-कुमारी पल्लवी बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा-द्वितीय स्थान
- 3-कुमारी काव्या कक्षा-8 की छात्रा-तृतीय स्थान
- 4-कुमारी ताशु कक्षा-12 की छात्रा-चतुर्थ स्थान
- 5-कुमारी तनिष्का कक्षा-6 की छात्रा-पंचम स्थान

दोनों प्रतियोगिता में पाँच-पाँच-प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत करते हुए सभी प्रतिभागियों को भविष्य में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु शुभकामनायें दी गयी।